



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261582  
CG-DL-E-12032025-261582

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1128]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2025/ फाल्गुन 21, 1946

No. 1128]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025/PHALGUNA 21, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025

**का.आ. 1141(अ).**—राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 684(अ), दिनांक 07 फरवरी 2025, रेल अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 24 ऑफ 1989), जिसे रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में रेलवे परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रकाशित की गई थी। यह अधिसूचना “दीदारगंज (एनईआर) — शाहगंज बिल्वाई बाईपास (शाहगंज जंक्शन) 5.7 किलोमीटर को जोड़ने वाली कॉर्ड लाइन” परियोजना से संबंधित है।

उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित हिंदी संस्करण के पृष्ठ संख्या 5 पर तालिका संख्या 3 में मुद्रण संबंधी त्रुटि परिलक्षित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप स्थल का नाम “**ताखा पश्चिम**” त्रुटिवश अंकित हो गया, जबकि वास्तविक एवं सत्यापित स्थल “**ताखा पूर्व**” है। हालांकि, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रति में सही स्थल “**ताखा पूर्व**” विधिवत रूप से अंकित है।

अतः, इस त्रुटि के परिष्कारार्थ “**ताखा पश्चिम**” के स्थान पर “**ताखा पूर्व**” प्रतिस्थापित करने हेतु आवश्यक शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी किया जाना अपेक्षित है, ताकि अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की भ्रांति से बचा जा सके।

अतः, उपर्युक्त संशोधन हेतु आवश्यक शुद्धिपत्र जारी करने तथा अभिलेखों को अद्यतन किए जाने की अनुमोदनार्थ प्रस्तुति की जाती है। संबंधित सभी प्राधिकरणों, भूमि स्वामियों एवं हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस संशोधन को संज्ञान में लें। मूल अधिसूचना की अन्य सभी सामग्री यथावत रहेगी।

[F. No. 190-W/Land/JNU and SHG ]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण-II